

Ganga Chalisa एक प्रसिद्ध हिंदी धार्मिक स्तोत्र है, जो माँ गंगा की महिमा और उनके पवित्र स्नान के गुणों की प्रशंसा करता है। माँ गंगा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और विशेष अवसरों पर उनके तीर्थयात्रा के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग **Ganga Chalisa** का पाठ करते हैं। इसे गंगा महोत्सव और कुंवा मेला के अवसर पर भी पढ़ा जाता है।

॥ श्री गंगा चालीसा ॥ Shree Ganga Chalisa ॥

॥ दोहा ॥

जय जय जय जग पावनी, जयति देवसरि गंग ।
जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग ॥

॥ चौपाई ॥

जय जय जननी हराना अघखानी ।
आनंद करनी गंगा महारानी ॥

जय भगीरथी सुरसरि माता ।
कलिमल मूल डालिनी विख्याता ॥

जय जय जहानु सुता अघ हनानी ।
भीष्म की माता जगा जननी ॥

धवल कमल दल मम तनु सजे ।
लखी शत शरद चंद्र छवि लजाई ॥ ४ ॥

वहां मकर विमल शुची सोहें ।
अमिया कलश कर लखी मन मोहें ॥

जदिता रत्ना कंचन आभूषण ।
हिय मणि हर, हरानितम दूषण ॥

जग पावनी त्रय ताप नासवनी ।
तरल तरंग तुंग मन भावनी ॥

जो गणपति अति पूज्य प्रधान ।
इहं ते प्रथम गंगा अस्नाना ॥ ८ ॥

ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी ।
श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवि ॥

साथी सहस्र सागर सुत तरयो ।
गंगा सागर तीरथ धरयो ॥

**अगम तरंग उठ्यो मन भवन ।
लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन ॥**

तीरथ राज प्रयाग अक्षैवेता ।
धरयो मातु पुनि काशी करवत ॥ १२ ॥

**धनी धनी सुरसरि स्वर्ग की सीधी ।
तरनी अमिता पितु पड़ पिरही ॥**

भागीरथी ताप कियो उपारा ।
दियो ब्रह्म तव सुरसरि धारा ॥

**जब जग जननी चल्यो हहराई ।
शम्भु जाता महं रह्यो समाई ॥**

वर्षा पर्यंत गंगा महारानी ।
रहीं शम्भू के जाता भुलानी ॥ १६ ॥

**पुनि भागीरथी शम्भुहीं ध्यायो ।
तब इक बूंद जटा से पायो ॥**

ताते मातु भें त्रय धारा ।
मृत्यु लोक, नाभा, अरु पातारा ॥


**गई पाताल प्रभावती नामा ।
मन्दाकिनी गई गगन ललामा ॥**

मृत्यु लोक जाह्वी सुहावनी ।
कलिमल हरनी अगम जग पावनि ॥ २० ॥

**धनि मइया तब महिमा भारी ।
धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी ॥**

मातु प्रभवति धनि मन्दाकिनी ।
धनि सुर सरित सकल भयनासिनी ॥

**पन करत निर्मल गंगा जल ।
पावत मन इच्छित अनंत फल ॥**



पुरव जन्म पुण्य जब जागत ।
तबहीं ध्यान गंगा महं लागत ॥ २४ ॥

**जई पगु सुरसरी हेतु उठावही ।
तई जगि अश्वमेघ फल पावहि ॥**

महा पतित जिन कहू न तारे ।
तिन तारे इक नाम तिहारे ॥

**शत योजन हूं से जो ध्यावहिं ।
निशचाई विष्णु लोक पद पावहीं ॥**

नाम भजत अगणित अघ नाशै ।
विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे ॥ २८ ॥

**जिमी धन मूल धर्म अरु दाना ।
धर्म मूल गंगाजल पाना ॥**

तब गुन गुणन करत दुख भाजत ।
गृह गृह सम्पति सुमति विराजत ॥

**गंगाहि नेम सहित नित ध्यावत ।
दुर्जनहूं सज्जन पद पावत ॥**

उद्धिहिन विद्या बल पावै ।
रोगी रोग मुक्त हवे जावै ॥ ३२ ॥

**गंगा गंगा जो नर कहहीं ।
भूखा नंगा कभुहुह न रहहि ॥**

निकसत ही मुख गंगा माई ।
श्रवण दाबी यम चलहिं पराई ॥

**महं अघिन अधमन कहं तारे ।
भए नरका के बंद किवारें ॥**

जो नर जपी गंग शत नामा ।
सकल सिद्धि पूरण है कामा ॥ ३६ ॥

**सब सुख भोग परम पद पावहीं ।
आवागमन रहित है जावहीं ॥**



धनि मइया सुरसरि सुख दैनि ।
धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ॥

**ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा ।
सुन्दरदास गंगा कर दासा ॥**

जो यह पढ़े गंगा चालीसा ।
मिली भक्ति अविरल वागीसा ॥ ४० ॥

॥ दोहा ॥

नित नए सुख सम्पति लहैं, धरें गंगा का ध्यान ।
अंत समाई सुर पुर बसल, सदर बैठी विमान ॥

संवत भुत नभ्दिशी, राम जन्म दिन चैत्र ।
पूरण चालीसा किया, हरी भक्तन हित नेत्र ॥

श्री Ganga Chalisa की महत्वपूर्ण विशेषताएं

Ganga Chalisa एक प्रसिद्ध हिंदी धार्मिक स्तोत्र है, जो माँ गंगा की महिमा और उनके पवित्र स्नान के गुणों की प्रशंसा करता है। माँ गंगा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और विशेष अवसरों पर उनके तीर्थयात्रा के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग **Ganga Chalisa** का पाठ करते हैं। इसे गंगा महोत्सव और कुंवा मेला के अवसर पर भी पढ़ा जाता है।

माँ की प्रशंसा: **Ganga Chalisa** के पाठ से भक्त माँ गंगा की प्रशंसा करते हैं और उनके पवित्र स्नान के गुणों की स्तुति करते हैं।

तीर्थयात्रा: **Ganga Chalisa** को विशेषकर गंगा महोत्सव और कुंवा मेला जैसे तीर्थयात्रा के अवसर पर पढ़ने से भक्तों को गंगा माता के पावन स्नान का सुअवसर मिलता है।

पाप मुक्ति: **Ganga Chalisa** के पाठ से भक्तों को पाप मुक्ति का सुअवसर मिलता है। मान्यता है कि गंगा जल से स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है।

आत्मशुद्धि: **Ganga Chalisa** के पाठ से भक्त को आत्मशुद्धि और सात्विकता की प्राप्ति होती है।

धार्मिक सम्मान: **Ganga Chalisa** के पाठ से भक्त की धार्मिक सम्मानता विकसित होती है और उन्हें धार्मिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने का बोध होता है।

इस प्रकार, **Ganga Chalisa** गंगा महोत्सव और कुंवा मेला जैसे धार्मिक अवसरों पर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक पाठ है, जो उन्हें माँ गंगा की महिमा, तीर्थयात्रा, पाप मुक्ति, आत्मशुद्धि, और धार्मिक सम्मानता के लिए प्रेरित करता है।

Visit: <https://sunderkand.net/>

